

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर 2014—भाद्र 11, शक 1936

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्र. एफ 11-1-2014-54-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 क्रमांक 35) की धारा 21(1) के अधीन मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर, श्री हाजी इनायत हुसैन, इन्दौर को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. एस. खैरबार, उपसचिव.